




# केनरा बैंक/CANARA BANK


(भारत सरकार का उपक्रम)/(A Govt. of India Undertaking)

प्र.का. 112, जे.सी. रोड, बेंगलूर-2/H.O : 112, J.C. Road, Bangalore - 2



फोटोग्राफ  
Photograph

आवेदक  
Applicant



फोटोग्राफ  
Photograph

संयुक्त आवेदक/गारंटर/सह-आभारी  
Jt. Applicant/Guarantor/Co-obligant

## ऋण आवेदन-पत्र/LOAN APPLICATION

(कृपया सभी कॉलम भरें, ब्लॉक अक्षरों का प्रयोग करें और जहाँ-कहाँ लागू हो उचित बॉक्स में ✓ चिन्ह लगाएँ)

(Please complete all columns, use BLOCK letters and tick appropriate box wherever applicable)

सेवा में/TO: केनरा बैंक/Canara Bank, .....

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बैंक की योजनानुसार नीचे दर्शाए ऋण/साख सुविधाएँ प्रदान करें।

I/We request you to grant me/us the loans/credit facilities indicated below as per the Bank's Scheme.

केनमोबाईल/CANMOBILE  केनबजट/CANBUDGET  केनपेंशन/CANPENSION  केनमहिला/CANMAHILA   
केनट्रैवल/CANTRAVEL  केनटेक/CANTECH  केनजिवेल/CANJEWEL  अध्यापक ऋण/TEACHERS' LOAN

आवश्यक विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है/The necessary particulars are furnished hereunder :

I. विवरण PARTICULARS	आवेदक APPLICANT	संयुक्त आवेदक/गारंटर/सह-आभारी JT. APPLICANT/GUARANTOR/CO-OBLIGANT
नाम/NAME :	श्री/श्रीमती/सुश्री/Mr/Mrs/Ms .....	श्री/श्रीमती/सुश्री/Mr/Mrs/Ms .....
पिता/पति का नाम FATHER'S/HUSBAND'S NAME :	श्री/Mr. ....	श्री/Mr. ....
जन्म तिथि व लिंग/DATE OF BIRTH & SEX:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div>           पुरुष/MALE <input type="checkbox"/> महिला/FEMALE <input type="checkbox"/> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div>           पुरुष/MALE <input type="checkbox"/> महिला/FEMALE <input type="checkbox"/> </div> </div>
वर्ग/CATEGORY :	अ जा/SC <input type="checkbox"/> अ ज जा/ST <input type="checkbox"/> पि जा/BC <input type="checkbox"/> अन्य/OTHERS <input type="checkbox"/> अल्पसंख्यक समुदाय/MINORITY COMMUNITY : इसाई/Christian <input type="checkbox"/> मुस्लिम/Muslim <input type="checkbox"/> पारसी/Parsi <input type="checkbox"/> सिख/Sikh <input type="checkbox"/> जोराष्ट्रियन/Zorastrian <input type="checkbox"/>	अ जा/SC <input type="checkbox"/> अ ज जा/ST <input type="checkbox"/> पि जा/BC <input type="checkbox"/> अन्य/OTHERS <input type="checkbox"/> अल्पसंख्यक समुदाय/MINORITY COMMUNITY : इसाई/Christian <input type="checkbox"/> मुस्लिम/Muslim <input type="checkbox"/> पारसी/Parsi <input type="checkbox"/> सिख/Sikh <input type="checkbox"/> जोराष्ट्रियन/Zorastrian <input type="checkbox"/>
आवास स्थिति/RESIDENTIAL STATUS :	निवासी/RESIDENT <input type="checkbox"/> अ-निवासी/NON-RESIDENT <input type="checkbox"/>	निवासी/RESIDENT <input type="checkbox"/> अ-निवासी/NON-RESIDENT <input type="checkbox"/>
शैक्षिक योग्यता/EDN. QUALIFICATIONS:	स्नातकाधीन/UNDER GRADUATE <input type="checkbox"/> स्नातक/GRADUATE <input type="checkbox"/> स्नातकोत्तर/POST-GRADUATE <input type="checkbox"/> पेशेवर/PROFESSIONAL <input type="checkbox"/> (स्पष्ट करें/Specify .....)	स्नातकाधीन/UNDER GRADUATE <input type="checkbox"/> स्नातक/GRADUATE <input type="checkbox"/> स्नातकोत्तर/POST-GRADUATE <input type="checkbox"/> पेशेवर/PROFESSIONAL <input type="checkbox"/> (स्पष्ट करें/Specify .....)
वैवाहिक स्थिति/MARITAL STATUS :	विवाहित/MARRIED <input type="checkbox"/> अविवाहित/UN MARRIED <input type="checkbox"/>	विवाहित/MARRIED <input type="checkbox"/> अविवाहित/UN MARRIED <input type="checkbox"/>
आश्रितों की सं./No. of DEPENDENTS:	बच्चे/CHILDREN <input type="checkbox"/> व्यस्क/ADULTS <input type="checkbox"/>	बच्चे/CHILDREN <input type="checkbox"/> व्यस्क/ADULTS <input type="checkbox"/>

वोटर आई डी कार्ड सं. / VOTER ID CARD No.

पैन सं. / PAN No. :

पासपोर्ट सं. / PASSPORT No

वर्तमान आवास

PRESENT ACCOMMODATION

आवास पता

Residential Address

दूरभाष सं. / Telephone No.

मोबाईल सं. / Mobile No.

कब से इस पते पर /

Since how long at this address

ई-मेल आई डी / E-Mail ID :

डाक-पता जहाँ सूचित किया जाना है /

Communication to be mailed to :


स्वयं का / Owned

कंपनी द्वारा प्रदान / Company provided

परिवार / Family

किराये का / Rented

प्रदत्त किराया / Rent Paid (Rs.....)

अन्य / Others

वर्तमान / Present: .....

पिन / PIN

..... वर्ष / Years

स्थायी / Permanent: .....

पिन / PIN

आवास / Residence

स्थायी पता / Permanent Address

कार्यालय / Office


स्वयं का / Owned

कंपनी द्वारा प्रदान / Company provided

परिवार / Family

किराये का / Rented

प्रदत्त किराया / Rent Paid (Rs.....)

अन्य / Others

वर्तमान / Present: .....

पिन / PIN

..... वर्ष / Years

स्थायी / Permanent: .....

पिन / PIN

आवास / Residence

स्थायी पता / Permanent Address

कार्यालय / Office

II. वेतनभोगी SALARIED\* स्वयंनियोजित\* / व्यवसाय\* SELF EMPLOYED\* / BUSINESS\* विविध MISCELLANEOUS

मल्टीनेशनल कं. Multinational Co  निर्माणकर्ता Manufacturing  सेवानिवृत्त Retired

पब्लिक लि. कं. Public Ltd Co  कारोबारी Trading  गृहपत्नी Housewife

सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र इकाई / Govt. Dept/PSU  सेवाएँ Services  छात्र Student

प्राइवेट लि. कं. Pvt Ltd. Co  कृषि Agriculture  अन्य Others\*\*

स्वामी / साझेदारी Prop./ Partnership  \*\* स्पष्ट करें Specify.....

\* संगठन / प्रतिष्ठान का नाम

\*Name of Organisation/Concern.....

पदनाम / Designation : .....

सेवाकाल / Length of Service ..... वर्ष / Yrs.

सेवानिवृत्ति की तिथि / Date of retirement : .....

कार्यालय पता / Office Address : .....

दूरभाष / Tele : .....

II. वेतनभोगी SALARIED\* स्वयंनियोजित\* / व्यवसाय\* SELF EMPLOYED\* / BUSINESS\* विविध MISCELLANEOUS

मल्टीनेशनल कं. Multinational Co  निर्माणकर्ता Manufacturing  सेवानिवृत्त Retired

पब्लिक लि. कं. Public Ltd Co  कारोबारी Trading  गृहपत्नी Housewife

सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र इकाई / Govt. Dept/PSU  सेवाएँ Services  छात्र Student

प्राइवेट लि. कं. Pvt Ltd. Co  कृषि Agriculture  अन्य Others\*\*

स्वामी / साझेदारी Prop./ Partnership  \*\* स्पष्ट करें Specify.....

\* संगठन / प्रतिष्ठान का नाम

\*Name of Organisation/Concern.....

पदनाम / Designation : .....

सेवाकाल / Length of Service ..... वर्ष / Yrs.

सेवानिवृत्ति की तिथि / Date of retirement : .....

कार्यालय पता / Office Address : .....

दूरभाष / Tele : .....

विभाग/Department .....	विभाग/Department .....
कर्मचारी सं./Employee No.....	कर्मचारी सं./Employee No.....
ईपीएफ सं./ EPF No.....	ईपीएफ सं./ EPF No.....
संगठन में कर्मचारियों की सं. No. of employees in the organisation .....	संगठन में कर्मचारियों की सं. No. of employees in the organisation .....
मासिक/वार्षिक आय/Monthly/Annual Income : रु./Rs..... स्रोत/Source .....	मासिक/वार्षिक आय/Monthly/Annual Income : रु./Rs..... स्रोत/Source .....
पति/पत्नी काम करता/ती है/Is Spouse working : हाँ/नहीं YES/NO. यदि हाँ, मासिक आय रु./If Yes, monthly income Rs.....	पति/पत्नी काम करता/ती है/Is Spouse working : हाँ/नहीं YES/NO. यदि हाँ, मासिक आय रु./If Yes, monthly income Rs.....
क्रेडिट कार्ड सं. / Credit Card No. ....	क्रेडिट कार्ड सं. / Credit Card No. ....
जारीकर्ता / Issued by : .....	जारीकर्ता / Issued by : .....
सीमा / Limit :	सीमा / Limit :

आय विवरण (रु.)/INCOME DETAILS (Rs.)		आय विवरण (रु.)/INCOME DETAILS (Rs.)	
वेतनभोगी व्यक्ति /पेंशनर्स SALARIED PERSONS / PENSIONERS	वेतनभोगी व्यक्तियों को छोड़कर/ OTHER THAN SALARIED PERSONS	वेतनभोगी व्यक्ति /पेंशनर्स SALARIED PERSONS / PENSIONERS	वेतनभोगी व्यक्तियों को छोड़कर/ OTHER THAN SALARIED PERSONS
मासिक कुल वेतन/पेंशन Monthly Gross Salary/Pension :	वार्षिक कुल आय Annual Gross Income :	मासिक कुल वेतन/पेंशन Monthly Gross Salary/Pension :	वार्षिक कुल आय Annual Gross Income :
मासिक निवल वेतन/पेंशन Monthly Net Salary/Pension :	वार्षिक निवल आय Annual Net Income :	मासिक निवल वेतन/पेंशन Monthly Net Salary/Pension :	वार्षिक निवल आय Annual Net Income :
अन्य आय (स्पष्ट करें) Other Income (specify) :	आय कर प्रदत्त, यदि कोई Income Tax paid, if any :	अन्य आय (स्पष्ट करें) Other Income (specify) :	आय कर प्रदत्त, यदि कोई Income Tax paid, if any :
वर्तमान में किसके साथ बैंकिंग कर रहे हैं PRESENTLY BANKING WITH : .....		वर्तमान में किसके साथ बैंकिंग कर रहे हैं PRESENTLY BANKING WITH : .....	
जमा राशि खाता विवरण DEPOSIT A/c DETAILS :		जमा राशि खाता विवरण DEPOSIT A/c DETAILS :	
देयताएँ, यदि कोई Liabilities, if any :		देयताएँ, यदि कोई Liabilities, if any :	

### III. आस्ति व देयताओं के विवरण/ DETAILS OF ASSETS & LIABILITIES :

(रु. में/In Rs.)

आस्तियाँ ASSETS	आवेदक APPLICANT	संयुक्त आवेदक/ गारंटर/सह-आभारी JT. APPLICANT/ GUARANTOR/CO-OBLIGANT	देयताएँ LIABILITIES	आवेदक APPLICANT	संयुक्त आवेदक/ गारंटर/सह-आभारी JT. APPLICANT/ GUARANTOR/CO-OBLIGANT
अचल संपत्ति IMMOVABLE PROPERTY			बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/ BANK/S/FINANCIAL INSTITUTION/S		
निवेश INVESTMENTS			नियोजक/EMPLOYER		
बैंक में बचत SAVINGS WITH BANK/S			अन्य/OTHERS (स्पष्ट करें/Specify)		
अन्य/OTHERS (स्पष्ट करें/Specify)					
कुल/TOTAL			कुल/TOTAL		

IV. क) क्या आवेदक/संयुक्त आवेदक/सह-आभारी/गारंटर हमारे बैंक के अध्यक्ष/निदेशकों/अन्य कोई बैंक हमारे बैंक के किसी कर्मचारी से संबंधित है। यदि हाँ, तो संबंध\* के ब्योरे .....

a) WHETHER APPLICANT/JT. APPLICANT/GUARANTOR IS RELATED TO CHAIRMAN/DIRECTORS OF OUR BANK/ANY OTHER BANK, ANY EMPLOYEES OF OUR BANK? IF YES, DETAILS OF RELATIONSHIP : .....

\* संबंधी का अर्थ है और इसमें शामिल हैं पति-पत्नी, पिता, माता (सौतेली माँ शामिल) बेट (सौतेला बेटा शामिल), बेटे की पत्नी, बेटी (सौतेली बेटी), बेटी का पति, भाई (सौतेला भाई), भाई की पत्नी, बहन (सौतेली बहन), बहन का पति, पति-पत्नी का भाई (सौतेला भाई शामिल), पति-पत्नी की बहन (सौतेली बहन)

\* Relationship means and includes spouse, father, mother (including step-mother) son (including step-son), son's wife, daughter (including step-daughter), daughter's husband, brother (including step-brother), brother's wife, sister (including step-sister), sister's husband, brother (including step-brother) of the spouse, sister (including step-sister) of the spouse.

ख) क्या आवेदक हमारे/अन्य बैंक के अध्यक्ष/प्रबंधन निदेशक/निदेशक हैं। यदि हाँ, तो ब्योरे प्रस्तुत करें :

b) WHETHER APPLICANT IS THE CHAIRMAN / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR(S) OF OUR / OTHER BANK. YES / NO. IF YES, FURNISH DETAILS :

V. ऋण का उद्देश्य/PURPOSE OF LOAN :

क) केनमोबाइल के संबंध में A. IN RESPECT OF CANMOBILE	दस्तु/वाहन बनाबट/ मॉडल का वर्णन Description of Article/ Vehicle - Make/Model	आपूर्तिकर्ता/व्यापारी का नाम व पता Name & Address of Supplier/Dealer	बीजक मूल्य/खरीद मूल्य (रु.) Invoice Value/ Purchase Price (Rs.)	के लिए आवेदित ऋण (रु.) Loan applied for (Rs.)
की खरीद/PURCHASE OF : कार/जीप : नई <input type="checkbox"/> उपयोग किया हुआ <input type="checkbox"/> Car/Jeep : New <input type="checkbox"/> Used <input type="checkbox"/> दो पहिया/Two Wheeler <input type="checkbox"/> उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु <input type="checkbox"/> Cons. Durable Article <input type="checkbox"/> कंप्यूटर/Computer <input type="checkbox"/>				
ख. के संबंध में - B. IN RESPECT OF -	ऋण का उद्देश्य PURPOSE OF THE LOAN		के लिए आवेदित ऋण की राशि (रु.) AMOUNT OF LOAN APPLIED FOR (Rs.)	
केनबजट/CANBUDGET केनपेंशन/CANPENSION केनमहिला/CANMAHILA अध्यापक ऋण/TEACHERS' LOAN केनट्रावल /CANTRAVEL केनटेक/CANTECH केनज्वेल/CANJEWEL				

केनट्रेवल के संबंध में यात्रा के ब्योरे/Details of Journey in case of CANTRAVEL :

यात्रा करने वाले व्यक्ति/यों का/के नाम Name of the person/s undertaking journey	भ्रमण करने का प्रस्तावित स्थान Places proposed to be visited	अनुमानित लागत/Estimated cost		कुल/TOTAL
		यात्रा/Journey	ठहरने का स्थान Lodging	

यात्रा प्रारंभ करने की तिथि/Date of commencement of Journey :

यात्रा/TRAVEL: भारत/In India  विदेश/Abroad  के माध्यम से/Through: हवाई/Air  जल/Water  सड़क/Road

वैयक्तिक व्यवस्था/Personally arranged Trip  यात्रा आयोजित करने वाले के माध्यम से/Through conducted tour

VI. ऋण का पुनर्भुगतान/REPAYMENT OF LOAN :

पुनर्भुगतान अवधि/REPAYMENT PERIOD :   महीने/Months

पुनर्भुगतान का तरीका/MODE OF REPAYMENT :

आपके साथ मेरे/हमारे ब बैं खाता सं. .... में वेतन को जमा करते हेतु वेतन देने वाले प्राधिकारी/नियोजक के साथ अविक्ल्पी

अधिदेस पंजीकृत करने के द्वारा।

By registering irrevocable mandate with the Salary paying authority/Employer to credit salary to my/our SB A/c No..... with you.

आपके साथ मेरे/हमारे ब बैं. खाता सं. .... में ऋण किस्तों/ब्याज को विप्रेषित करने हेतु वेतन देने वाले प्राधिकारी/नियोजक के साथ अविक्ल्पी अधिदेश पंजीकृत करने के द्वारा।

By registering irrevocable mandate with the salary paying authority/Employer to remit loan instalments/Interest to my/our SB A/c No..... with you.

आपके साथ मेरे/हमारे ब.बैं. खाता सं..... से ऋण किस्त/ब्याज की कटौती के लिए अविक्ल्पी अधिदेश।  
Irrevocable Mandate for deduction of loan instalment/interest from my/our SB A/c No..... with you.

पी डी सी/Post Dated Cheques  अन्य कोई (स्पष्ट करें)/Any other (specify) .....

मैंने/हमने निम्नसूचित प्रलेखों की प्रतियाँ संलग्न की है/ I/WE HAVE ATTACHED THE COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS :

आवेदक/कों और गारंटर/सह-आभारी/रों की पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो प्रतियाँ  
2 copies of Passport size Photographs of the Applicant/s and Guarantor/s / Co-obligant

प्रोफोर्मा बीजक/कों/Proforma Invoice/s

उपयोग किया हुआ वाहन के संबंध में ऑटोमोबाईल इंजीनियर से मूल्यांकन रिपोर्ट (यदि लागू हो तो)  
Valuation Report of Automobile Engineer in respect of Used Vehicles (if applicable).

उपर्युक्त प्रलेखों के अतिरिक्त, निम्नसूचित प्रस्तुत करना है/In addition to the above documents, following are to be submitted by

वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा Salaried persons	व्यवसायिकों और अन्य गैर-वेतनभोगी वर्ग द्वारा/Professionals and other Non-salaried class	(केनमहिला/CANMAHILA)	
		कामकाज़ी महिला द्वारा Working women	गैर-कामकाज़ी महिला द्वारा Non-working women
वेतन प्रमाणपत्र और फार्म सं. 16 Salary certificate and Form No. 16	आई टी ओ द्वारा पावती स्वीकार किए गए पिछले दो वर्षों की आय कर विवरणियाँ Income Tax Returns for the past two years acknowledged by ITO	वेतन पर्ची और/या आय कर विवरण/आई टी ए ओ Salary Slip and/or IT Returns/ITAO	उसके पति/पिता/पुत्र का वेतन पर्ची और/या आय कर विवरण/आई टी ए ओ Salary Slip and/or IT Returns/ITAO of her husband/father/son

#### घोषणा/DECLARATION

- मैं/हम एतद्वारा इस आवेदन प्रपत्र के ऋण आवेदन कॉलम में दर्शाए सीमा तक केनरा बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन देता हूँ/देते हैं।  
I/We hereby apply for a loan from Canara Bank to the extent indicated in the Loan Request column of this application form.
- मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत पूर्वोक्त विवरण एवं सूचना सच्चा, सही और पूर्ण है तथा यह किसी ऋण का आधार बनाती है जिसे केनरा बैंक मुझे मंजूर करने हेतु निर्णय ले सकता है।  
I/We declare that the foregoing particulars and information furnished in this application form are true, accurate and complete and that they shall form the basis of any loan Canara Bank may decide to sanction me.
- मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मेरे प्रति कोई दिवालिया कार्रवाही नहीं है, न ही दिवालिया का न्याय निर्णय दिया गया है।  
I/We confirm that I have/had no insolvency proceedings against me, nor have I been adjudicated insolvent.
- मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि ..... आचरण संहिता की प्रति प्राप्त हुई है और पुष्टि करते हैं कि उसको पढ़ा है।  
I/We confirm having received a copy of Fair Practice Code and confirm having read the same.
- मैं/हम आगे पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने शर्तों को पढ़ा है और उसमें दिए विषय-वस्तु को समझा है।  
I/We further confirm that I have read the terms and conditions and understood the contents therein.
- मैं/हम पुष्टि करता हूँ/हैं कि प्रतिभूमि के रूप में प्रदान संपत्ति के मामले में कोई मुकदमा लंबित नहीं है।  
I/We confirm that no litigation is pending in the matter of property offered as security.
- मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि केनरा बैंक, अपने विवेकानुसार, इस आवेदन के संबंध में विवेक जाँच कर सकता है।  
I/We hereby agree that Canara Bank may, at its discretion, conduct discreet enquiry in respect of this application.
- मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे व्यवसाय/नौकरी, आवासीय पता में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना दूँगा/देंगे और कोई अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराऊँगा/कराएँगे जिसकी बैंक को आवश्यकता है।  
I/We undertake to inform as to any change in my occupation/employment, residential address and provide any further information that the Bank may require.
- केनरा बैंक को जैसे भी आवश्यक हो ऐसी कार्रवाई करते की छूट है, यदि उपर्युक्त मेरा/हमारा दिया हुआ ब्योरा गलत पाया जाता है।  
Canara Bank will be at liberty to take such action as it may deem necessary, if my/our above statements are found to be untrue.
- मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बिना कोई कारण बताए इस आवेदन को रद्द करने/ऋण राशि को कम करने का केनरा बैंक को एकमात्र विवेकाधिकार है।  
I/We agree that Canara Bank shall have the sole discretion to reject this application/reduce the loan amount without assigning any reason therefor.
- मैं/हम आगे सहमत हूँ/हैं कि मेरा ऋण लेन-देन केनरा बैंक के नियमों के अनुसार होगा जो कि समय-समय पर लागू होता रहेगा।  
I/We further agree that my loan transactions shall be governed by the rules of Canara Bank which may be in force from time to time.

आवेदक का हस्ताक्षर  
Signature of the Applicant

स्थान/PLACE :

दिनांक/DATE :

संयुक्त आवेदक/गारंटर का हस्ताक्षर  
Signature of the Jt-Applicant / Guarantor/Co-obligant

स्थान/PLACE :

दिनांक/DATE :

कार्यालय उपयोगार्थ/ FOR OFFICE USE

साख रिपोर्ट सं./CREDIT REPORT No.

दिनांक/DATE :

ग्राहक आई डी/CUSTOMER ID :

निम्नसूचित सीमा नीचे दिए शर्तों के अनुसार मंजूर किया जाता है/ The following limit is sanctioned on the terms and conditions detailed below :

सीमा की प्रकृति Nature of Limit	राशि (रु.) Amount (Rs.)	मार्जिन Margin	ब्याज दर* Rate of Interest*	पुनर्भुगतान शर्तें Repayment Conditions	वैयक्तिक गारंटी को शामिल करते हुए प्रतिभूति के ब्योरे/ Details of Security including Personal Guarantee

\* समय पर बैंक द्वारा लिए गए निर्णयानुसार परिवर्तन किया जाएगा/ \*Subject to change as decided by the Bank from time to time

अन्य शर्तें/ Other terms & conditions :

- 1) बैंक उधारकर्ता को उचित सूचना देते हुए किसी स्तर पर वित्तीय सहायता भाग में या पूर्ण या वापस लेना/बंद कर सकता है। ऋण सुविधाएँ का इस पत्र की तिथि से 6 महीने भीतर लाभ उठाता है, अन्यथा, सीमाएँ अपने आप रद्द की जाएँगी।  
The Bank may revoke in part or in full or withdraw/stop financial assistance at any stage by giving reasonable notice to the borrower. Credit facilities sanctioned are to be availed within 6 months from the date of this letter, failing which, the limits will automatically stand cancelled.
- 2)
- 3)
- 4)

प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक  
MANAGER/SENIOR MANAGER/CHIEF MANAGER

मंजूर की सभी शर्तों को स्वीकार किया गया  
Accepted all the terms and conditions of sanction.

उधारकर्ता/ BORROWER